



## COVID-19 का परीक्षण और उपचार

भले ही आपके पास वीज़ा नहीं है, या आप अपने वीज़ा की स्थिति के बारे में अनिश्चित हैं, तो आपके लिए यह आवश्यक है कि आप जनस्वास्थ्य निर्देशों का पालन करें। यदि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे/रही हैं, तो चिकित्सीय सलाह लें और COVID-19 का परीक्षण करवाएँ।

राज्य और राज्य-क्षेत्रों की सरकारें निःशुल्क COVID-19 परीक्षण और उपचार उपलब्ध करा रही हैं।

- [ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र](#)
- [न्यू साउथ वेल्स](#)
- [उत्तरी राज्य-क्षेत्र](#)
- [क्वींसलैंड](#)
- [दक्षिण ऑस्ट्रेलिया](#)
- [तस्मानिया](#)
- [विक्टोरिया](#)
- [पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया](#)

## मेरे पास विशेष श्रेणी वीज़ा (Special Category Visa) है

न्यूज़ीलैंड और आस्ट्रेलिया के नागरिकों के बीच ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जिनके तहत हम एक-दूसरे के देश में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं।

### क्या मैं ऑस्ट्रेलिया में किसी भी समर्थन का प्रयोग करने के लिए पात्र हूँ?

यदि आप एक संरक्षित एससीवी (SCV) न्यूज़ीलैंड नागरिक हैं और अन्य पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते/करती हैं, तो आप जॉब सीकर (Job Seeker) और जॉब कीपर (Job Keeper) भुगतान सहित सभी कल्याण भुगतानों के लिए पात्र होंगे/होंगी।

यदि आप एक संरक्षित एससीवी (SCV) न्यूज़ीलैंड नागरिक नहीं हैं और आपके पास TY444 वीज़ा है, तो भी आप अपने कार्य-नियोक्ता के माध्यम से जॉब कीपर (Job Keeper) भुगतानों के लिए पात्र होंगे/होंगी।

## संरक्षित न्यू ज़ीलैंड नागरिक कौन होता है?

निम्नलिखित में से किसी एक समूह में आने वाला व्यक्ति संरक्षित एससीवी (SCV) न्यू ज़ीलैंड नागरिक धारक होता है:

- वह 26 फरवरी 2001 के दिन ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित था/थी
- वह इस तिथि से तत्काल 2 वर्ष पहले की अवधि में 12 महीनों के लिए ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित था/थी
- 26 फरवरी 2004 से पहले सेवाएँ ऑस्ट्रेलिया (Services Australia) द्वारा एक संरक्षित एससीवी (SCV) के रूप में उसका आकलन किया गया था।

[सेवाएँ ऑस्ट्रेलिया \(Services Australia\) की वेबसाइट](#) पर संरक्षित एससीवी (SCV) धारकों के बारे में और अधिक जानकारी और सलाह प्राप्त की जा सकती है।